



**ALL INDIA TRADE TEST - 2024 FOR CRAFTSMEN  
TRAINING SCHEME (CTS)  
Trade Name: Machinist  
Year: 1st Year**

Exam Date :  
Exam Time :

**Note:**

1. Tick the correct option out of four alternatives provided
2. All questions carry equal marks (2 Marks each)
3. There is no negative marking

Sr. No.	Q ID	Question Body and Alternatives	Marks	Negative Marks
Trade Theory				
1	1	<p>What is the feature checked by Try square? ट्राई स्क्वायर द्वारा जांचा किया गया फीचर क्या है?</p>  <p>A1 : Straightness सीधापन</p> <p>A2 : Flatness समतलता</p> <p>A3 : Squareness वर्गाकारिता</p> <p>A4 : Parallelism समानांतर</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
2	2	<p>What is the angle between two machined surface on angle plate? एंगल प्लेट पर दो मशीनी सतह के बीच कितना कोण होता है?</p> <p>A1 : 120°</p> <p>A2 : 120° 90°</p> <p>A3 : 45° 45°</p> <p>A4 : 60° 60°</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
3	3	<p>What is the name of accessory? उपसाधन का नाम क्या है?</p>	2.0	0.00



A1 Surface Plate

: सरफेस प्लेट

A2 Angle Plate

: एंगल प्लेट

A3 Marking Plate

: मार्किंग प्लेट


A4 Parallel Block

: पैरेलल ब्लॉक

Trade Theory


4	4	What is the material used made of surface plate? सरफेस प्लेट को बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?	2.0	0.00
		<p>A1 Good quality cast iron : अच्छी गुणवत्ता कास्ट लोहा</p> <p>A2 High carbon steel : उच्च कार्बन स्टील</p> <p>A3 High speed steel : हाई स्पीड स्टील</p> <p>A4 Mild steel : माइल्ड स्टील</p>		

Trade Theory

5	5	What is the name of the accessory? उपसाधन का नाम क्या है?	2.0	0.00
		 <p>A1 V-block : वी-ब्लॉक</p> <p>A2 Parallel block : समानांतर ब्लॉक</p> <p>A3 Slotted type angle plate : स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट</p> <p>A4 Marking plate : मार्किंग प्लेट</p>		

Trade Theory

6	6	What is the name of the accessory? उपसाधन का नाम क्या है?	2.0	0.00
---	---	--	-----	------



A1  
: V-block

वी-ब्लॉक

A2  
: Parallel block

समानांतर ब्लॉक

A3  
: Try square

ट्राई स्क्वायर

A4  
: Surface plate

सरफेस प्लेट

#### Trade Theory


7	7	<p>What is purpose V-block? वी-ब्लॉक का उद्देश्य क्या है?</p> <p>A1 : Hold round jobs राउंड जॉब रखने के लिए</p> <p>A2 : Hold irregular jobs अनियमित कार्य करने के लिए</p> <p>A3 : Hold unsymmetrical jobs असममित जॉब रखने के लिए</p> <p>A4 : Hold rectangular jobs आयताकार जॉब होल्ड करने के लिए</p>	2.0	0.00
---	---	--	-----	------

#### Trade Theory

8	8	<p>What is the least count of vernier height gauge? वर्नियर हाइट गेज की अल्पत्मांक क्या है?</p> <p>A1 : 0.001 mm 0.001 mm</p> <p>A2 : 0.002 mm 0.002 mm</p> <p>A3 : 0.005 mm 0.005 mm</p> <p>A4 : 0.02 mm 0.02 mm</p>	2.0	0.00
---	---	---	-----	------

#### Trade Theory

9	9	<p>What is the part shown as X in the figure? आकृति में दिखाए गए हाइट गेज में X के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है?</p>	2.0	0.00
---	---	--	-----	------



A1 Main scale

मुख्य पैमाना

A2 Vernier scale

वर्नियर पैमाना

A3 Beam

बीम

A4 Main slide

मुख्य स्लाइड

## Trade Theory

10

10

How we specify a vernier height gauge?  
हम एक वर्नियर हाइट गेज कैसे निर्दिष्ट करते हैं?

A1 Width of beam

बीम की चौड़ाई

A2 Height of beam

बीम की ऊँचाई

A3 Thickness of beam

बीम की मोटाई

A4 Size of base

आधार का आकार

2.0


0.00

Trade Theory

11

11

What is the name of the angle marked X?  
चिह्नित X कोण का नाम क्या है?



A1 Helix angle

हेलिक्स कोण

A2 . Point angle


पॉइंट कोण



A3 Chisel angle

2.0

0.00


		छेनी का कोण A4 : Lip clearance angle लिप क्लीयरेंस कोण		
Trade Theory				
12	12	What is the formula to find out RPM of drill? ड्रिल का RPM पता लगाने का क्या फॉर्मूला है?  A1 : $\frac{d \times 1000}{V \times \pi}$ A2 : $\frac{\pi \times 1000}{V \times d}$ A3 : $\frac{V \times 1000}{\pi d}$ A4 : $\frac{\pi d}{V \times 1000}$	2.0	0.00
Trade Theory				
13	13	How many numbers are in metric tap set? मेट्रिक टैप सेट में कितने नंबर होते हैं?  A1 : 1 1 A2 : 2 2 A3 : 3 3 A4 : 4 4	2.0	0.00
Trade Theory				
14	14	Which device is used as datum while marking with vernier height gauge? वर्नियर हाइट गेज के साथ चिह्नित करते समय किस डिवाइस को डाटम के रूप में उपयोग किया जाता है  A1 : Face plate फेस प्लेट A2 : Surface plate सरफेस प्लेट A3 : Angle plate ऐंगिल प्लेट A4 : Driving plate ड्राइविंग प्लेट	2.0	0.00
Trade Theory				
15	15	Why the tap drill size to be calculated? टैप ड्रिल आकार की गणना क्यों की जाए?  A1 : To avoid drill breaking ड्रिल ब्रेकिंग से बचने के लिए A2 : To avoid material wastage	2.0	0.00

		<p>भौतिक अपव्यय से बचने के लिए</p> <p>A3 : To calculate sufficient cutting speed</p> <p>काटने की पर्याप्त गति की गणना करने के लिए</p> <p>A4 : To maintain sufficient material to tap</p> <p>टेप के लिए पर्याप्त सामग्री बनाए रखने के लिए</p>		
Trade Theory				
16	16	<p>What is denoted by 'V' in the formula</p> <p>सूत्र में 'V' द्वारा दर्शाया गया है</p> $V = \frac{\pi dn}{1000}$ <p>A1 : Feed in m / rev</p> <p>मी / रेव में फ़ीड करें</p> <p>A2 : Feed in mm / rev</p> <p>मिमी / रेव में फ़ीड करें</p> <p>A3 : Cutting speed in m / min</p> <p>मी / मिनट में कर्तन गति</p> <p>A4 : Cutting speed in mm / min</p> <p>मिमी / मिनट में कर्तन गति</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
17	17	<p>What is the distance a drill advances in one rotation while drilling?</p> <p>ड्रिलिंग करते समय एक घुमाव में एक ड्रिल अग्रिम क्या दूरी है?</p> <p>A1 : Feed</p> <p>फ़ीड</p> <p>A2 : Depth of cut</p> <p>कट की गहराई</p> <p>A3 : Cutting speed</p> <p>कर्तन गति</p> <p>A4 : Cutting length</p> <p>कर्तन लंबाई</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
18	18	<p>What is the name of part marked X?</p> <p>भाग X का नाम क्या है?</p>  <p>A1 : Column</p> <p>कॉलम</p> <p>A2 : Spindle</p> <p>स्पिंडल</p> <p>A3 : Over head shaft</p>	2.0	0.00

		ओवर हेड शाफ्ट A4 : Table elevating clamp टेबल एलिवेटिंग क्लैप		
Trade Theory				
19	19	What is the name of the operation? ऑपरेशन का नाम क्या है?  A1 : Reaming रीमिंग A2 : Spot facing स्पॉट फेसिंग A3 : Counter boring काउंटर बोरिंग A4 : Counter sinking काउंटर सिंकिंग	2.0	0.00
Trade Theory				
20	20	What is the name of the part X? भाग X का नाम क्या है?  A1 : Base आधार A2 : Column कॉलम A3 : Radial arm रेडियल आर्म A4 : Spindle head स्पिंडल हेड	2.0	0.00
Trade Theory				
21	21	What is the purpose of 'depth stop' in a drilling machine? ड्रिलिंग मशीन में डेप्थ स्टॉप का उद्देश्य क्या है?  A1 : To drill big holes बड़े छेद ड्रिल करने के लिए A2 : To flush out chips चिप्स बाहर फ्लश करने के लिए A3 : To measure hole depth छेद की गहराई मापने के लिए	2.0	0.00

		<p>A4 : To control the down ward movement of drill spindle</p> <p>ड्रिल स्पिंडल के डाउन वार्ड गति को नियंत्रित करने के लिए</p>		
Trade Theory				
22	22	<p>What is the purpose of counter sinks with pilot? पायलट के साथ काउंटर सिंक का उद्देश्य क्या है?</p> <p>A1 : For rough works मोटे कामों के लिए</p> <p>A2 : Light duty works लाइट ड्यूटी काम करती है</p> <p>A3 : Medium size holes मध्यम आकार के छेद</p> <p>A4 : To align with drilled hole ड्रिल किए गए छेद के साथ संरेखित करने के लिए</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
23	23	<p>Calculate the cutting speed used for drilling a 20 mm dia meter hole in a mild steel work piece with a rpm of 3992. 3992 के आरपीएम के साथ एक हल्के स्टील के काम के टुकड़े में 20 मिमी व्यास मीटर छेद ड्रिलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली कर्तन गति की गणना करें?</p> <p>A1 : 20 m / min 20 m / min</p> <p>A2 : 25 m / min 25 m / min</p> <p>A3 : 30 m / min 30 m / min</p> <p>A4 : 35 m / min 35 m / min</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
24	24	<p>Calculate the rpm for drilling a hole of diameter 16 mm on cast iron with a cutting speed 30 m / minute? एक कर्तन गति 30 मीटर / मिनट के साथ कच्चा लोहा पर व्यास मीटर 16 मिमी के छेद को ड्रिलिंग के लिए आरपीएम की गणना करें?</p> <p>A1 : 497 rpm 497 rpm</p> <p>A2 : 597 rpm 597 rpm</p> <p>A3 : 697 rpm 697 rpm</p> <p>A4 : 797 rpm 797 rpm</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
25	25	<p>Which way the coolant flows through the cutting edge in a drill? ड्रिल में कटिंग एज के माध्यम से शीतलक किस तरह से बहता है?</p> <p>A1 : Web वेब</p> <p>A2 : Land लैंड</p> <p>A3 : Body बॉडी</p> <p>A4 : Flutes फ्लूट्स</p>	2.0	0.00





		फ्लूट		
		Trade Theory		
26	26	<p>What is the use of threading dies? थ्रेडिंग डाई का उपयोग क्या है?</p> <p>A1 : To cut external thread बाहरी चूड़ी को काटने के लिए</p> <p>A2 : To cut internal thread आंतरिक चूड़ी को काटने के लिए</p> <p>A3 : To finish whole size पूरा आकार फिनिश करने के लिए</p> <p>A4 : To produce whole सम्पूर्ण उत्पादन करने के लिए</p>	2.0	0.00
		Trade Theory		
27	27	<p>What is the operation shown figure? ऑपरेशन दिखाया गया आंकड़ा क्या है?</p>  <p>A1 : Drilling ड्रिलिंग</p> <p>A2 : Reaming रीमिंग</p> <p>A3 : Spot facing स्पॉट फेसिंग</p> <p>A4 : Counter sinking काउंटर सिंकिंग</p>	2.0	0.00
		Trade Theory		
28	28	<p>What is the term in BIS limits fits to mention the size with dimensional durations? बीआईएस लिमिट में क्या शब्द आयामी अवधि के साथ आकार का उल्लेख करने के लिए फिट बैठता है?</p> <p>A1 : Size आकार</p> <p>A2 : Basic size मूल आकार</p> <p>A3 : Actual size वास्तविक आकार</p> <p>A4 : Maximum size अधिकतम आकार</p>	2.0	0.00
		Trade Theory		
29	29	<p>What is the formula for finding maximum limit size in BIS system? बीआईएस प्रणाली में अधिकतम लिमिट आकार खोजने का सूत्र क्या है?</p> <p>A1 : Maximum limit = Basic size + Upper deviation अधिकतम लिमिट = मूल आकार + ऊपरी विचलन</p> <p>A2 : Maximum limit = Basic size + Lower deviation</p>	2.0	0.00

		<p>अधिकतम लिमिट = मूल आकार + निचला विचलन</p> <p>A3 : Maximum limit = Upper deviation – Basic size</p> <p>अधिकतम लिमिट = ऊपरी विचलन - मूल आकार</p> <p>A4 : Maximum limit = Lower deviation – Basic size</p> <p>अधिकतम लिमिट = कम विचलन - मूल आकार</p>		
Trade Theory				
30	30	<p>Which type of fit is obtain of the hole is bigger than the shaft? छेद किस प्रकार का फिट है जो शाफ्ट से बड़ा है?</p> <p>A1 : Tight fit टाइट फिट</p> <p>A2 : Transition fit ट्रांजिशन फिट</p> <p>A3 : Clearance fit क्लीयरेंस फिट</p> <p>A4 : Interference fit इंटरफ़ेन्स फिट</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
31	31	<p>What is mass production? बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है?</p> <p>A1 : Producing work in pairs जोड़ियों में काम करना</p> <p>A2 : Producing a work in single piece एकल टुकड़े में एक काम का निर्माण</p> <p>A3 : Producing an work in large numbers बड़ी संख्या में एक काम का उत्पादन</p> <p>A4 : Producing an work in limited numbers सीमित संख्या में काम का उत्पादन करना</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
32	32	<p>Which system of limits and fits are followed in our country? हमारे देश में लिमिट्स और फिट्स की किस प्रणाली का पालन किया जाता है?</p> <p>A1 : BIS system BIS प्रणाली</p> <p>A2 : DIN system DIN प्रणाली</p> <p>A3 : BSS system BSS प्रणाली</p> <p>A4 : FPS system FPS प्रणाली</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
33	33	<p>Which term used to indicate external dimension of a component in BIS system of limits &amp; fits? लिमिट और फिट के बीआईएस सिस्टम में एक डेटाकैड के बाहरी आयाम को इंगित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 : Hole छेद</p> <p>A2 : Shaft शाफ्ट</p>	2.0	0.00

		A3 Deviation : विचलन A4 Tolerance : सहनशीलता		
Trade Theory				
34	34	How many grades of tolerances are represented in BIS system? बीआईएस प्रणाली में सहिष्णुता के कितने ग्रेड का प्रतिनिधित्व किया जाता है?  A1 12 : 12 A2 15 : 15 A3 18 : 18 A4 25 : 25	2.0	0.00
Trade Theory				
35	35	Which fundamental deviation symbol indicate 'Hole basis' system? कौन सा मौलिक विचलन प्रतीक होल आधार 'प्रणाली को दर्शाता है?  A1 h : h A2 H : H A3 p : p A4 j : j	2.0	0.00
Trade Theory				
36	36	What is an advantage of mass production? बड़े पैमाने पर उत्पादन का एक फायदा क्या है?  A1 Production rate is increased : उत्पादन दर बढ़ जाती है A2 Measuring time is increased : मापने का समय बढ़ाया जाता है A3 Jigs and fixtures are needed : जिग्स और फिक्सचर की जरूरत है A4 Special purpose machines are needed : विशेष प्रयोजन मशीनों की जरूरत है	2.0	0.00
Trade Theory				
37	37	What is a vernier caliper? वर्नियर कैलिपर क्या है?  A1 Angular measuring instrument : कोणीय मापक यंत्र A2 Indirect measuring instrument : अप्रत्यक्ष मापक यंत्र A3 Precision measuring instrument : परिशुद्धता मापने का यंत्र	2.0	0.00





		A4 : Telescopic measuring instrument टेलीस्कोपिक मापने का उपकरण		
Trade Theory				
38	38	Which is an integrated part of beam of a vernier caliper? वर्नियर कैलिपर के बीम का एक एकीकृत हिस्सा कौन सा है?  A1 : Fixed jaw स्थिर जबड़ा A2 : Depth bar गहराई बार A3 : Thumb lever थम्ब लीवर A4 : Vernier slide वर्नियर स्लाइड	2.0	0.00
Workshop Calculation and Science				
39	39	Which metal contains iron as a major content? इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है?  A1 : Brass metal पीतल धातु A2 : Bronze metal ब्रॉज धातु A3 : Zinc ज़िंक A4 : Ferrous metal लोह धातु	2.0	0.00
Workshop Calculation and Science				
40	40	Which property of metal has its power of returning to its original shape after the applied force is released? धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्ववस्था में आने की क्षमता रखता है?  A1 : Malleability आघातवर्धनीयता A2 : Tenacity टढ़ता A3 : Elasticity प्रत्यास्था A4 : Plasticity सुघट्यता	2.0	0.00
Workshop Calculation and Science				
41	41	What is termed as the quantity of matter contained in a body? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है?  A1 : Density घनत्व A2 : Volume आयतन A3 : Mass द्रव्यमान A4 : Specific gravity	2.0	0.00

		विशिष्ट गुरुत्व		
		Workshop Calculation and Science		
42	42	<p>What is called mass per unit volume of a substances?  किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं?</p> <p>A1 : Mass  द्रव्यमान</p> <p>A2 : Weight  भार</p> <p>A3 : Density  घनत्व</p> <p>A4 : Volume  आयतन</p>	2.0	0.00
		Workshop Calculation and Science		
43	43	<p>What is the ratio of power output to power input?  शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है?</p> <p>A1 : Work  कार्य</p> <p>A2 : Energy  ऊर्जा</p> <p>A3 : Efficiency  दक्षता</p> <p>A4 : Acceleration  त्वरण</p>	2.0	0.00
		Workshop Calculation and Science		
44	44	<p>How many watts for 1 horse power in British system?  ब्रिटिश सिस्टम में, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं?</p> <p>A1 : 726 watts  726 watts</p> <p>A2 : 736 watts  736 watts</p> <p>A3 : 746 watts  746 watts</p> <p>A4 : 756 watts  756 watts</p>	2.0	0.00
		Engineering Drawing		
45	45	<p>Identify the conventional symbol of material?  सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div> <p>A1 : Lead  लेड</p>	2.0	0.00

		A2 Steel : इस्पात A3 Glass : कांच A4 Porcelain : चीनी मिट्टी		
Engineering Drawing				
46	46	Identify the conventional symbol of material? सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें? 	2.0	0.00
		A1 Concrete : संगीत कार्यक्रम A2 Steel : इस्पात A3 Wood : लकड़ी A4 Glass : कांच		
Engineering Drawing				
47	47	Identify the conventional symbol of material? सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें? 	2.0	0.00
		A1 Steel : इस्पात A2 Wood : लकड़ी A3 Glass : कांच A4 Concrete : ठोस		
Engineering Drawing				
48	48	What is the trimmed size of A4 sheet? A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? A1 841 x 1189 : 841 x 1189	2.0	0.00


A2  
: 594 x 841  
594 x 841  
A3  
: 210 x 297  
210 x 297  
A4  
: 148 x 210  
148 x 210

Engineering Drawing

49	49	<p>Which drawing dimension is correct as per IS standard? IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है?</p> <p>A1 :</p>  <p>A2 :</p>  <p>A3 :</p>  <p>A4 :</p> 	2.0	0.00
----	----	--	-----	------

Engineering Drawing

50	50	<p>Identify the name of prism? चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है?</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------



EDNG112005

- A1  
: Square prism  
स्क्वायर प्रिज्म
- A2  
: Pentagonal prism  
पंचकोणीय प्रिज्म
- A3  
: Triangular prism  
त्रिकोणीय प्रिज्म
- A4  
: Hexagonal prism  
हेक्सगोनल प्रिज्म

Employability Skills

51	51	Fill in the blank with correct word. "They _____ good friends" रिक्त में सही शब्द भरें। "They _____ good friends"	2.0	0.00
A1 :	is			
A2 :	am			
A3 :	are			
A4 :	was			

Employability Skills

52	52	Fill in the blank with present progressive tense of the verb. "The train _____ through the tunnel" क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। "The train _____ through the tunnel"	2.0	0.00
A1 :	passed			
A2 :	is passing			
A3 :	had passed			
A4 :	was passing			

Employability Skills

53	53	Fill in the blank with proper interrogative adjective. _____ are you going? उचित ईटोरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। _____ are you going?	2.0	0.00
A1 :	Who			
A2 :	Where			



		A3 Which : Which A4 What : What		
Employability Skills				
54	54	Fill in the blank with proper pronoun. "I made this cake _____" रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। "I made this cake _____"  A1 myself : myself A2 yourself : yourself A3 himself : himself A4 itself : itself	2.0	0.00
Employability Skills				
55	55	Fill in the blank with proper pronoun. "She made this cake _____" रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। "She made this cake _____"  A1 itself : itself A2 myself : myself A3 herself : herself A4 himself : himself	2.0	0.00
Employability Skills				
56	56	Fill in the blank with proper reflexive pronoun. "She has hurt _____" रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। "She has hurt _____"  A1 myself : myself A2 herself : herself A3 himself : himself A4 itself : itself	2.0	0.00
Employability Skills				
57	57	Fill in the blank with suitable adjective for the given sentence "The little girl's..... eyes revealed her mischief" दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। "The little girl's..... eyes revealed her mischief"  A1 chubby : chubby A2 weak : weak A3 short sighted : short sighted	2.0	0.00


		A4 : twinkling twinkling		
Employability Skills				
58	58	Fill in the blank with suitable place preposition. "My house is _____ the third floor" उपयुक्त स्थान पूर्वसर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। "My house is _____ the third floor"  A1 : at at A2 : in in A3 : on on A4 : under under	2.0	0.00
Employability Skills				
59	59	Fill in the correct question word. "_____ is the speaker at the function?" सही प्रश्न शब्द भरें। "_____ is the speaker at the function?"  A1 : What What A2 : When When A3 : Why Why A4 : Who Who	2.0	0.00
Employability Skills				
60	60	Low level language is also called _____. निम्न स्तर की भाषा को _____ भी कहा जाता है  A1 : source code सोर्स कोड A2 : middle ware मध्यस्थ A3 : machine language मशीन भाषा A4 : assembly language असेंबली भाषा	2.0	0.00
Employability Skills				
61	61	Pronunciation refers to _____. उच्चारण _____ को संदर्भित करता है  A1 : diphthong संयुक्त स्वर A2 : consonant व्यंजन A3 : punctuation विराम चिह्न A4 : production of sound ध्वनि का उत्पादन	2.0	0.00

Employability Skills				
62	62	<p>Re-arrange the following set of words into meaningful sentence. “teacher / school / worked / she / a / as”.</p> <p>शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। “teacher / school / worked / she / a / as”</p> <p>A1 : School worked as a she teacher</p> <p>School worked as a she teacher</p> <p>A2 : She worked as a school teacher</p> <p>She worked as a school teacher</p> <p>A3 : She teacher worked as a school</p> <p>She teacher worked as a school</p> <p>A4 : Worked she as a school teacher</p> <p>Worked she as a school teacher</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
63	63	<p>Rise and fall of pitch of voice is called _____.</p> <p>आवाज़ की पिच का उठना और गिरना _____ कहलाता है</p> <p>A1 : vowel</p> <p>स्वर</p> <p>A2 : intonation</p> <p>आवाज़ का उतार-चढ़ाव</p> <p>A3 : consonant</p> <p>व्यंजन</p> <p>A4 : pronunciation</p> <p>उच्चारण</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
64	64	<p>The word that expresses a sudden and strong feeling is called _____.</p> <p>वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे _____ कहा जाता है</p> <p>A1 : punctuation</p> <p>विराम चिह्न</p> <p>A2 : interjection</p> <p>विस्मयादिबोधक</p> <p>A3 : conjunction</p> <p>संयोजन के रूप</p> <p>A4 : apostrophe</p> <p>एपोस्ट्रॉफी</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
65	65	<p>When you greet higher official’s such as Teacher, Instructor or Supervisor, you should use _____.</p> <p>जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं, तो आपको _____ का उपयोग करना चाहिए</p> <p>A1 : Good morning</p> <p>Good morning</p> <p>A2 : Hello</p> <p>Hello</p> <p>A3 : Hey</p> <p>Hey</p> <p>A4 : Hi</p> <p>Hi</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
66	66	<p>Which is a silent letter in the word “ANSWER”?</p> <p>“ANSWER” शब्द में कौन सा मूक अक्षर है?</p>	2.0	0.00

		A1 R : R A2 E : E A3 S : S A4 W : W		
Employability Skills				
67	67	Which one is a “Do’s” of discussion etiquettes? चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा “Do’s” है?  A1 Loose your temper : अपना आपा खोएं A2 Listen to others : दूसरों की सुनें A3 Talk about irrelevant details : अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें A4 Use impolite or rude language : अभद्र या अशिष्ट भाषा का उपयोग करें	2.0	0.00
Employability Skills				
68	68	Which one is a “Don’t” of discussion etiquette? चर्चा शिष्टाचार का “Don’t” है?  A1 Be open minded : दिमाग खुला रखना A2 Use moderate tone : मध्यम स्वर का प्रयोग करें A3 Listen to others : दूसरों की सुनें A4 Argue unnecessary : अनावश्यक बहस करें	2.0	0.00
Employability Skills				
69	69	Which one is a brain of computer? कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है?  A1 Keyboard : कीबोर्ड A2 CPU : सी पी यू A3 Monitor : मॉनिटर A4 Hard disk : हार्ड डिस्क	2.0	0.00
Employability Skills				
70	70	Which one is an exclamatory sentence? कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है?  A1 What a beautiful house it is!	2.0	0.00

		<p>What a beautiful house it is!</p> <p>A2 : It is a beautiful house.</p> <p>It is a beautiful house.</p> <p>A3 : Is it a beautiful house?</p> <p>Is it a beautiful house?</p> <p>A4 : Your house is beautiful.</p> <p>Your house is beautiful.</p>		
Employability Skills				
71	71	<p>Which one is in active voice? सक्रिय आवाज में कौन सा है?</p> <p>A1 : Ram has passed the exam.</p> <p>Ram has passed the exam.</p> <p>A2 : The ball was caught by him.</p> <p>The ball was caught by him.</p> <p>A3 : The book was being read by her.</p> <p>The book was being read by her.</p> <p>A4 : We were driven home by dad.</p> <p>We were driven home by dad.</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
72	72	<p>Which one is in passive voice? निष्क्रिय आवाज में कौन सा है?</p> <p>A1 : Mohan is painting a house.</p> <p>Mohan is painting a house.</p> <p>A2 : She was reading a book.</p> <p>She was reading a book.</p> <p>A3 : Her birthday was celebrated by us.</p> <p>Her birthday was celebrated by us.</p> <p>A4 : I have seen that movie.</p> <p>I have seen that movie.</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
73	73	<p>Which one is NOT a conjunction? कौन सा एक संयोजन नहीं है?</p> <p>A1 : And</p> <p>And</p> <p>A2 : Or</p> <p>Or</p> <p>A3 : But</p> <p>But</p> <p>A4 : On</p> <p>On</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
74	74	<p>Which one is NOT a benefit of the role playing? भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है?</p> <p>A1 : Builds confidence</p> <p>आत्मविश्वास पैदा करता है</p> <p>A2 : Develops listening skill</p> <p>सुनने का कौशल विकसित करता है</p>	2.0	0.00

		A3 : Develops creative problem-solving skill रचनात्मक समस्या-समाधान कौशल विकसित करता है A4 : Develops boredom बोरियत पैदा करता है		
Employability Skills				
75	75	Which one is NOT a vowel? कौन सा स्वर नहीं है?  A1 : a a A2 : e e A3 : f f A4 : i i	2.0	0.00


  
SAMPLE QUESTION PAPER SET 2

### Machinist - 1st Year - Set 2

S.No.	Correct Answer Key
1	A3
2	A2
3	A2
4	A1
5	A3
6	A1
7	A1
8	A4
9	A1
10	A2
11	A2
12	A3
13	A3
14	A2
15	A4
16	A3
17	A1
18	A1
19	A4
20	A3
21	A4
22	A4
23	A2
24	A2
25	A4
26	A1
27	A2
28	A2
29	A1
30	A3
31	A3
32	A1
33	A2
34	A3
35	A2
36	A1
37	A3
38	A1

S.No.	Correct Answer Key
39	A4
40	A3
41	A3
42	A3
43	A3
44	A3
45	A2
46	A4
47	A4
48	A3
49	A1
50	A4
51	A3
52	A2
53	A2
54	A1
55	A3
56	A2
57	A4
58	A3
59	A4
60	A3
61	A4
62	A2
63	A2
64	A2
65	A1
66	A4
67	A2
68	A4
69	A2
70	A1
71	A1
72	A3
73	A4
74	A4
75	A3

**Note:**

"In case answers found to be inaccurate due to typographical error or any other reason please sent mail to [qbnimigrievance@gmail.com](mailto:qbnimigrievance@gmail.com)"